



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 126) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-3-3018/05 का0-932)  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प  
24 फरवरी 2009

श्री परमानन्द कुमार, (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-1334/04, 1151/08 तत्कालीन अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वारसोई, कटिहार द्वारा इंदिरा आवास योजना में अनियमितता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिये सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिये निलम्बित किया जाता है। श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का भी निर्णय है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय आयुक्त प्रमंडल, सहरसा में निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

**आदेश:-**आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री परमानन्द कुमार एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 126-571+10-डी0टी0पी0।